

परियोजना आधारित अस्थायी रिक्तियाँ

संशोधित

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में बिहार के विभिन्न जिलों में निम्न परियोजना आधारित अस्थायी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित है ।

1. ट्रेनर्स (Trainers) @INR 12000 / - प्रति माह

2. सुगमकर्ता (Facilitators) @INR 15000 / - प्रति माह

आवेदन एवं बायोडाटा (CV) जमा करने की अंतिम तिथि : 25 मार्च 2022 को 17:00 बजे तक

परियोजना के संबंध में; संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के तत्वावधान में बिहार के मदरसों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम Adolescence Education Program (AEP) को मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय क्रियान्वयन कर रही है । AEP का उद्देश्य किशोरों में आजीवन अधिगम को बढ़ाना एवं शक्ति संवर्धन करना है । मदरसों में शिक्षकों की क्षमता को शक्ति - संवर्धन करने के लिए नोडल शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण और 40 मदरसों की एक इकाई में मदरसा संसाधन केंद्रों को विकसित किया जाएगा । 40 मदरसों की इकाई पर एक मदरसा संसाधन केंद्र प्रशिक्षण , रिक्रेशर और सहायक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए कार्य करेगा । प्रत्येक एम आर सी में 3 ट्रेनर और 1 सुगमकर्ता होंगे । मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भागीदार है जिसका प्रयास नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण , सहायक पर्यवेक्षण और मदरसा संसाधन केंद्र को स्थापित करना , उसका क्रियाकलाप एवं प्रबंधन करना है ।

संबंधित एम आर सी क्षेत्रों में ट्रेनर और सुगमकर्ता की जरूरत है (कृपया एम आर सी की सूची देखें और अपने बायोडाटा / आवेदन में जिस एम आर सी में आप रुचि रखते हैं उसका उल्लेख और मोबाइल नंबर अवश्य लिखें ।

आवेदन कैसे करें : शैक्षिक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ एक बायोडाटा / सीबी निम्नलिखित ईमेल आईडी पर भेजें : manuuaep@gmail.com

प्रो . मो . शाहिद (परियोजना निदेशक)

यू.एन.एफ.पी.ए. मानू (AEP) परियोजना MANUU हैदराबाद



1 ट्रेनर (मदरसा संसाधन केंद्र)

आवश्यक योग्यता :

- किसी भी विषय में स्नातक
- उन्हें उर्दू का अच्छा ज्ञान होना चाहिए
- समान प्रकृति की परियोजनाओं के अनुभव वाले लोगों को वरीयता दी जाएगी / जिनके पास B.Ed / M.Ed / MSW / मदरसा पृष्ठभूमि हो

- संबंधित एम आर सी क्षेत्र के निवासी को वरीयता दी जाएगी

भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ :

- ट्रेनर , नोडल शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और AEP क्रियान्वयन एवं सहायक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे
- टीम के सदस्यों , मदरसा स्टाफ , हेड मास्टर , प्रबंधन समिति के सदस्यों , छात्रों शिक्षकों अभिभावकों और सिविल सोसाइटी के साथ अच्छा समन्वय विकसित करना
- समय सीमा के भीतर गुणवत्ता रिपोर्ट जमा करना
- नोडल शिक्षक (NT) प्रशिक्षण और अन्य सामुदायिक गतिविधियों का योजना बनाना और आयोजन क्षमता का प्रदर्शन
- आवंटित मदरसों में NT की कार्य योजना बनाना और AEP क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
- पर्यवेक्षक को AEP की क्रियान्वयन एवं दिन - प्रतिदिन के कार्य से अवगत कराना ।
- गतिविधियों का अनुमानित साप्ताहिक / द्वि- साप्ताहिक कार्य योजना प्रस्तुत करना
- मदरसा प्रमुख , एम आर सी, आर आर सी, एपीसी, पीसी, पीडी द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेना ।
- पर्यवेक्षक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य

2- सुगमकर्ता (मदरसा संसाधन केंद्र)

आवश्यक योग्यता:

- किसी भी विषय में स्नातक
- उन्हें उर्दू का अच्छा ज्ञान होना चाहिए
- समान प्रकृति की परियोजनाओं के अनुभव वाले लोगों को वरीयता दी जाएगी / जिनके पास B.Ed / M.Ed / MSW / मदरसा पृष्ठभूमि हो
- संबंधित एम आर सी क्षेत्र के निवासी को वरीयता दी जाएगी



भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ :

- एपीसी के क्षेत्रीय संसाधन समन्वयक के सहयोग से एम आर सी में सुचारू कामकाज और गतिविधियों को सुनिश्चित करना
- ट्रेनरों के सभी कार्यकलाप के साथ - साथ सुगमकर्ता एम आर सी को नेतृत्व प्रदान करेगा
- एईपी क्रियान्वयन व सहायक पर्यवेक्षण के साथ मदरसा संसाधन केंद्र (एम आर सी) द्वारा सौंपे गए / संचालित किए गए पूरे कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा
- एनटी प्रशिक्षण , पर्यवेक्षी यात्रा और एम आर सी प्रबंधन की योजना और आयोजन
- टीम के सदस्यों , मदरसा स्टाफ , हेड मास्टर , प्रबंधन समिति के सदस्यों , छात्रों शिक्षकों अभिभावकों और सिविल सोसाइटी से अच्छा समन्वय स्थापित करना ।
- एईपी क्रियान्वयन के आयोजन और संचालन की योजना बनाने में एनटी को सहायता प्रदान करना
- निर्धारित प्रारूप में समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
- एम आर सी पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग में जवाबदेही और पारदर्शिता ।
- APC के सहयोग से NT प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों के लिए किए गए सभी वित्तीय अग्रिमों और व्यय के लिए जिम्मेदार होंगे ।
- मदरसा प्रमुख , आरआरसी, एपीसी, पीसी, पीडी द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेना ।
- पर्यवेक्षक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य गतिविधियों का अनुमानित साप्ताहिक / दिव सप्ताहिक - साप्ताहिक कार्य योजना प्रस्तुत करना ।
- आवंटित मदरसों में NT की कार्य योजना बनाना और AEP क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

संशोधित मदरसा संसाधन केंद्रों (एम आर सी) की सूची और परियोजना क्षेत्र ;

क्रम संख्या	MRC स्थान	शामिल किये गए जिले	MRC की संख्या	सुगमकर्ताओ की संख्या	ट्रेनर्स की संख्या
1	अररिया	अररिया	3	3	9
2	किशनगंज	किशनगंज	9	9	27
संभावित रिक्तियां :					
3	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	1	1	0
4	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	2	2	3
5	पूर्वी चंपारण	पूर्वी चंपारण	2	2	2
6	पश्चिम चंपारण	पश्चिम चंपारण	2	2	3
7	सुपौल	सुपौल	1	1	0
8	सहरसा	सहरसा	1	1	1
9	दरभंगा	दरभंगा	5	0	7
10	मधुबनी	मधुबनी	6	4	11
11	भागलपुर	भागलपुर	1	1	1
12	औरंगाबाद	गया, रोहतास, बक्सर	1	1	2
13	नालंदा	पटना, नवादा, भोजपुर	1	0	2
14	सीवान	सीवान	1	0	1
15	समस्तीपुर	समस्तीपुर	1	1	3

नोट : संभावित रिक्तियां विषयानुत्तर्गत परिवर्तनीय है।

प्रो . मो . शाहिद
 परियोजना निदेशक

यू . एन . एफ . पी . ए . मानू (AEP) परियोजना MANUU हैदराबाद